



Ref. No.: KAIJOR/F/W001

Date: 22/08/2020

प्रेस विज्ञप्ति

समाज में शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए आन लाइन परिचर्चा २३ अगस्त को

बरेली। कंजुल ईमान फाउंडेशन की ओर से मुस्लिम समाज में शोध और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस परिचर्चा में देश भर से अध्यापक, शिक्षाविद, विद्वान और इस्लामी इस्कातरस सम्मलित होंगे। कंजुल ईमान फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री आमिर तहसीनी ने बताया कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले प्रवक्ताओं में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, परिसर केरल के सहेयक प्रोफेसर शाहनवाज़ अहमद मालिक, एमिटी यूनिवर्सिटी से डॉ अहमद जुनैद, अकादमिक विद्वान श्री शाहनवाज़ खान प्राचार्य साबरी पब्लिक स्कूल बरेली, मनज़मह फ़लाहियाह से समाज सेवक श्री नदीम शेख, मासिक पत्रिका पयामे बरकात के एडिटर मौलाना आरिफ रज़ा नोमानी इत्यादि शामिल हैं। इस परिचर्चा में सम्मिलित प्रत्येक पैनलिस्ट से प्रश्नों का भी सिलसिला रहेगा। संस्था के जनसंपर्क अधिकारी श्री फ़रदीन अहमद ख़ान साहब ने बताया कि "मुस्लिमों में शैक्षिक और आध्यात्मिक पतन के कारण" के विषय पर होने वाले इस प्रोग्राम में संस्था से जुड़े आध्यात्मिक गुरु, अकादमी विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, उलेमा आदि भी आन लाइन उपस्थित रहेंगे।

रिसर्च डिवीजन के हेड श्री यासिर रज़ा कादरी ने बताया कि संस्था की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं शिक्षा के प्रचार के लिए समयानुसार विभिन्न प्रोग्राम, प्रकाशन, ट्रेनिंग आदि होती रहती है और इसके लिए संस्था में ज्ञान एवं शोध का वातावरण, सफलता को पाने की लगन और निश्चय की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अकादमी सम्पर्क की भावना का संचार किया जा रहा है इसी क्रम में संस्था ने कंजुल ईमान इंटरनेशनल जर्नल ऑन रज़वियात व रिसर्च हेल्प डेस्क स्थापना की है। जिस से शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले शोध और उसकी महत्वपूर्णता को समझने का मौका मिलेगा। साथ ही संस्था ने नारी उत्थान के लिए अलग से कंजुल हया पत्रिका निकालने का निर्णय किया है। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षित वर्ग उपस्थित रहेगा, इसे कंजुल ईमान फाउंडेशन के आफिशल फेसबुक पेज पर लाइव दोपहर दो बजे से सुना जा सकता है।

भवदीय

आमिर हुसैन
अध्यक्ष

1st F, Khanqah-e-Aaliya Qadriya Razawiyya Nooria
Tehsinia, Allama Tehseen Raza Khan Street, Kankar
Tola, Old City, Bareilly Shareef (U.P) India - 243005

Kanzuliman Foundation
Helpline Number
+91 955 50148 79

info.kanzuliman@gmail.com
www.kanzuliman.org

